CIN: L51909UP1933PLC146675

To, The Department of Corporate Affairs The BSE Limited 25Th Floor P J Towers, Dalal Street, Mumbai -400001, India

Date: 20.09.2024

Sir Shadi Lal Enterprises Limited - Scrip Code- 532879

Subject: Notice of Postal Ballot & Remote E-Voting published in the Newspapers

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, we enclose herewith copies of the relevant newspapers advertisement regarding Notice of Postal Ballot and remote e-voting and other related information published in all editions of Financial Express (English) Jansatta (Hindi) and Harit Shakti (Hindi) on 20 September,

You are requested to please take the above on record.

Thanking you.

Yours faithfully

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

(Ajay Kumar Jain) **Company Secretary** M No. -F5826

यूपी/हरियाणा 3 दैनिक हरित शक्ति शामली, शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 E-mail: haritshakti2@gmail.com

वांटेड काजल खत्री से हो सकती है पूछताछ,

एयरलाइन क्रू मेंबर हत्या की है मास्टरमाइंड

नोएडा. / एजेंसी । 19 जनवरी को ग्राइक सवार तीन बदमाशों ने कार में बैठे एयरलाइंस कर्मी सूरज मान की गोलियां बरसाकर हत्यां कर दी थी। जेल में बंद गैंगस्टर कपिल मान के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया था। मतक एयरलाइंस कर्मी सरज ली के गैंगस्टर प्रवेश मान का सगा भाई था। इस इत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कपिल मान की गर्लफ्रेंड काजल खत्री को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस की कई टीम काजल की है। संभवता कागज से पछताछ के

मोरना डिपो के पीछे की दीवार

गिरी,बड़ा हादसा होने से टला

ही दीवार के स्थान पर फेंसिंग की जाएगी। ये दीवार करीब 15 मीटर तक

गिरी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात और सुबह के समय बारिश

सेक्टरों में बिजली सप्लाई बाधित है। इसकी वजह लोकल फाल्ट बताय

रहेगा। हवा की रफ्तार 1.9 किमी प्रतिघंटा चल रही हौ।

कर रही थी। लेकिन हर बार चकमा देकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने शटर ही लिरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा जल की ट्रांजिट रिमांड ले सकता है। हत्याकांड की पूरी कहानी वो उसे दिल्ली के रोहणी से देर रात ही काजल ने लिखी थी। काजल नोएडा लेकर पहुंची। यहां गोपनीय ाइल ऐप के जरिए जेल में बंद स्थान पर पछताछ कर रही है। नोएडा कपिल और शटरों के बीच कम्यनिकेशन ने काजल पर 25 हजार का इनाम भी oरती थी। लोकेशन से लेकर हथियार महैया कराना और साजिश को अंजाम घोषित किया है। साथ ही एक बार फिर से मर्डर का सीन का रीक्रिएशन कराया उ तक पहुंचाना पैसों का लेनदेन सब जाए सकता है। इस मामले में अब भी कुछ काजल के हाथ में ही है। दरअसल, कपिल के जेल में रहने से उसका पूरा गैंग काजल की आपस्ट कर रही थी।

कपिल मान और प्रवेश मान के बीच दोनों पक्ष से पांच लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है।

सूरज मान की हत्या भी गैंगवार का ही नतीजा थी। हत्या के बाद पुलिस ने मतक के भाई की शिकायत पर गैगस्टर . कपिल मान के भाई समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। वारदात मान के भाई धीरज मान समेत दो

लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एव अन्य की गिरफ्तारी बाद में भी हुई। इस मामले में नोएडा पुलिस ने बाद में कपिल मान के करीबी दिल्ली के खेड़ा खर्द के शक्ति मान, संजीत और हरजीत न व कन्छावाला निवासी सोनू उर्फ विकास और रोहिणी निवासी काजल खत्री को भी आरोपी बनाया था। पुलिस के मुताबिक काजल मंडोली जेल में बंद दिल्ली के गैंगस्टर कपिल मान की महिला मित्र है। इस मामले में दिल्ली

नोएडा / एजेंसी । ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस ने अधिवक्ता के यहां चोरी करने के मामले फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए 1,15,000 रूपये बरामद किए हैं। इस घटना में शामिल बाकी चोरों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल दादरी कोतवाली के गैस गोदाम के पीछे कालोनी रहने वाले अधिवक्ता संजय शर्मा के यहां पर 13 अगस्त को चोरों ने घर और अलमारी

चोरों ने उनके घर से लाखों रूपये की नगदी और लाखों रुपए की को नगरा आर लाखा रुपए का ज्वेलरी चोरी की थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और टीम बनाकर चोरों की तलाश में जुट गई। दादरी पुलिस ने आज इस गामले में लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना में संलिप्त चोर स्वालिन उर्फ चूहा को पेरिफेरल पुल के पास से गिरपतार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 1 15 000 रूपये

है। आरोपी ने पूछताछ में बताया वि लसने अपने साथी मलमान चांद और आबिद के साथ चिटहैरा गांव में गैस गौदाम के पास एक बंद घर से गेट और अलमारी तोड़कर कीम सामान और पैसे चोरी किये थे। चोरी कुल 6,50,000 रुपये और कुछ तीला सोना भी मिला था। इन लोगो ने मुझे 1,00,000 रुपये दिये थे तथा जेक्शत के बदले 60,000 रुपये और दिये थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है।

होटल के कमरे किया शेयर

बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन इन दिनों लदाख में छुड़ियों का लुक्फ उठा रहे हैं। इस बीच, उन्होंने होटल के कमरे से एक शानदार नजारा तस्वीरों में केंद्र कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लदाख में अपनी छुट्टियों का लुत्प जता रहे कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें साझा की गुंबद वाला स्तूप है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी तस्वीर अपने होटल के कमरे से शेयर की। इसमें पहाड और नीला आसमान का नजारा



आपका शर्मीलापन कहीं हनीमून का

मजा ना कर दे किरकिरा, शर्म को

छोड़ खुलकर करें एंजॉय

संबंध और गहरा होगा। यदि आप बहत जयादा शर्मीली हैं तो पहली बार में अपनी भावनाओं को व्यक्त तरह से नहीं बन पातीं. जिससे निराशा करना मुश्किल हो सकता है। इससे हो सकती है। इसलिए सप्रीइज थोड़ी असहजता महसूस हो संकती प्लानिंग करते समय ध्यान रखें कि है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसे बेहतर

होटल के कमरे को मोमबत्तियाँ

तों और नरम संगीत से सजाना

रोमांटिक माहील बनाने में मदद

करेगा। इससे आप दोनों एक–दूसरे

के साथ समय बिताने में अधिक सहज

शमीली हैं. तो इस तरह का रोमांटिक

माहौल आपको असहज महसूस करा सकता है। इस स्थिति में, धीरे–धीरे

माहौल को हल्का रखने की कोशिश

. छोटे–छोटे पलों का आनंद लें'

छोटे पलों जैसे साथ में चाय

पीना, समुद्र किनारे टहलना, या सूरज

डबते देखना, आपके रिश्ते को मजबत

करेंगे। ये पल आपको और आपके पार्टनर को बिना किसी दबाव के

एक्साइटिंग एक्टिविटीज में भाग

का इंतजार बेसबी से रहता है। यह

खुलकर बातचीत करें

किसी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे बोटिंग, ट्रेकिंग या रोमांटिक डिनर का प्लान करना आपको एक-दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा। यह हनीमून के यादगार पलों में से एक आपके पार्टनर को किसी एक्टिविटी आपक पाटनर का किसा रावटानटा का अनुभव नहीं है या आप उसमें सहज नहीं हैं, तो यह थोड़ा तनावपूर्ण भी हो सकता है।

सप्रांडज प्लान करें

अपने पार्टनर के लिए एक छोटा सप्रीइज, जैसे उनके पसंदीदा फड ऑर्डर करना या खास जगह की विजिट प्लान करना, उन्हें खुश कर सकता है। यह आपके शर्मीलंपन को भी कम करेगा और आप दोनों के

पर ध्यान देते हैं और इन छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन पूलों का भी आनंद लेना जरूरी आपकी योजनाएं आपके पार्टनर की पसंद के अनुरूप हों। रोमांटिक माहौल बनाए

स्पेस दें और लें

हनीमून के दौरान अपने साधी को व्यक्तिगत स्पेस देना भी जरूरी है। इससे आपको और आपके पार्टनर को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर ध यान देने का समय मिलेगा। अगर बहत जयादा स्पेस दिया जाए, तो है। इसलिए इसे संतुलित करना

ध्यान रखें कि परफेक्शन जरूरी नहीं: खुद पर परफेक्शन का दबाव न डालें। हनीमून का उद्देश्य एक-दूसरे के साथ समय बिताना है, न कि हर पल को परफेक्ट बनाना का आनंद लेंगी। कभी—कभी समाज की उम्मीदें या सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले आदर्श हनीमन की छवि आपके अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, असलियत में जो

5—दूसरे के साथ जोड़ने का मौका देंगे। कभी-कभी हनीमन पर अधिक सप्राइज में कई बार योजनाएं पूरी और रोज सुरूर फिल्मों में जनके बेटे हिमेश रेशमिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, विपिन ने श्रहंशाक का सूरजर नाम की फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। विपिन रेशमिया के जरिए ही सलमान की मुलाकात हिमेश रेशमिया से हुई थी। जिसके बाद सलमान ने हिमेश रेशमिया को श्यार किया तो दिमाग पर सीधा अटैक करते है। पहली तस्वीर शांति स्तूप की थी जो लद्दाख के लेह जिले के घांसप डरना क्यार का म्युजिक देने का मौका दिया था। हिमेश रेशमिया के पिता विभिन एक संगीतकार थे. जिन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे को दी। विभिन ने हिमेश में अहम भूमिका निशाई। हिमेश पिता को अपना गुरू भी थे। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने बेटे की संगीत प्रतिमा पर कितना में एक पहाड़ी की चोटी पर सफेव गर्व था, जिसकी वजह से उन्होंने संगीत निर्देशक बनने का अपना सपना छोड़ दिया और हिमेश को संगीत सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। 2021 में इंस्टाग्राम हैं ये 5 जानलेवा वायरस





आज हम बात करेंगे उन खतरनाक संक्रामक वायरसों के बारे में जो हमारे दिमाग पर सीधा अटैक कर सकते हैं। इन वायरसों के चलते मस्तिष्क में सूजन, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और कभी-कभी तो जानलेवा स्थितिया भी उत्पन्न हो सकती हैं। जानिए ऐसे पांच जानलेवा वायरस के बारे में. जो आपके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। चलिए, शुरू करते

वेस्ट नाइल फीवर

वेस्ट नाइल बुखार एक मच्छर द्वारा फैला वायरस है, जिसके लक्षणों में सिरदर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकडन मांसपेशियों में कमजोरी और दौरे शामिल हैं।

यह वायरस अगर दिमाग तक पहुँच जाए, तो मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसमें जीका और डेंग दोनों शामिल हैं। वेस्ट नाइल फीवर वैसे तो ज्यादा हानिकारक नहीं माना जाता है, मगर दिमाग तक वायरस हड़ी की परत पर सूजन कर सकता है। कई बार मरीज को मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती हैं, जो कि एक संक्रामक बीमारी है।

रेबीज

रेबीज एक जानलेवा वायरस है जो आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है। यह वायरस नसों के जरिए दिमाग में पहुंचकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर सकता है। समय पर इलाज न कराने पर यह इंसान को कोमा में पहुंचा सकता है या यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है।

कोविड-19

कोविड-19 का वायरस इंसान के दिमाग पर समय के साथ गंभीर प्रमाय डाल सकता है। यह मस्तिष्क में सुजन पैदा करता है और कई मरीजों में ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप भलने की बीमारी, स्टेस, और तनाव का अनुभव बढ सकता है।

डेंगू बुखार से भी दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, जोड़ों में दर्द, और उल्टी शामिल हैं। डेंगू के गंभीर मामलों में एन्सेफ्लाइटिस हो सकता है, जो दिमाग में सूजन का कारण बनता है।

ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस

ईईई एक मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है, जो इम्युन सिस्टम पर हमला करता है। यह दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है और सोचने-समझने ही क्षमता को कमजोर कर सकता है। यह वायरस जानवरों में भी प्रभाव डालता है और कई बार यह जानलेवा साबित होता है। दिमाग से जुडी बीमारियों का संकट बढता जा रहा है। इन वायरसों से बचने के लिए सावध गानी बरतना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आपकी जान और स्वास्थ्य सबसे

महत्वपूर्ण हैं।

अधिवक्ता के घर चोरी करने वाला चूहा गिरफ्तार,चोरी के सवा लाख रुपए बरामद

नोएडा. / एजेसी। नोएडा में लगातार हो रही बारिश के चलते मोरना बस डिपो के पीछे की दीवार गिर गईं। ये दीवार गांव की तरफ है। गनीमत रही कि दीवार के पास कोई नहीं था। जानकारी मिलते ही थाना सेक्टर—24 पुलिस मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। साथ के चलते दीवार गिरी। देर रात होने की वजह से यहां कोई नहीं था। अक्सर लोग इस दीवार के नीचे बैठते हैं। इसके अलावा नोएडा में कई जा रहा है। जिसे ठीक कराया जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक आज बारिश के आसार है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आईएमडी के मुताबिक 20 से 24 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। वहीं हल्की धूप निकलेगी। इसके अलावा

हिमेश रेशमिया के पिता और संगीत निर्देशक

विपिन रेशमिया का 87 साल की उम्र में निधन

कार्तिक ने अपने से पहाड़ों का दृश्य

सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

संगीतकार हिमेश रेशमिया के पिता मशहर संगीत निर्देशक विपिन रेशमिया का 8.

अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। विपिन रेशमिया सांस लेने में

तकलीफ और उम्र संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। 18 सितंबर की रात अस्पताल में भर्ती कराए गए और देर रात निधन हो गया। विपिन 87 वर्ष के

थे। उनका अंतिम संस्कार आज, 19 सितंबर को मुंबई में किया जाएगा। विपिन रेशमिया ने संगीत निर्देशन में आने से पहले एक टेलीविजन धारावाहिक निर्माता

के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद संगीतकार ने तेरा सुरूर, द एक्सपोज

और इंसाफ की जंग के लिए निर्माता का काम किया। विपिन रेशमिया के द एक्सपोज

प : अपर पोकाब शुगर मिल्स, शामली 2 CIN : L51909UP1933PLC146675 ww.sirshadilal.com ई-मेल : shares@ssel.trivenigroup.com फोन : 01398-250084 फैक्स : 01398-250032

डाक मतपत्र सूचना

तदद्वारा कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम**") वि १रा 108, 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों, चींदे कोई हो, साथ में पठित कंपनीज (प्रकंपन और प्रशासन रायमन, 2014 (नियमन) के नियम 20 और 22 एवं कोनिट कार्य जातावा (पुण्तीप परिपत्र) हा तारी साधारण परिपत्र संख्यार्थ ४/,7000 दिनांक जातेव 8, 2000 और परिपत्र संख्या 17/,200 नियम 53 अदीर, 2000, परिपत्र संख्या १/,2003 दिनांक जातेव 8, 2000 और परिपत्र संख्या 17/,200 तेकार्य अपने परिपत्र के परिपत्र के प्रतिकृतिक परिपत्र के प्रतिकृतिक परिपत्र १,000 एवं वास्त सामु परिपत्र तेकार्योजनिक एक्ट एक्समेंक चोर्ड ऑक इंडिया (निस्टिंग दायाओं और प्रकटीकरण आसरकाराओं दिलाल 13 अदिल, 2000, परिषण संख्या 8/2003 दिलाण 25 पितान्य 25 प्रतिपन्त 2502 प्रवास वामु परिषण, विकासियों प्रतिपन्त प्रवासने अर्थे अति महिन्या वितिष्टंत प्रतिपन्त (अर्थे प्रवासने अर्थे अति महिन्या वितिष्टंत प्रतिपन्त वितिष्टंत ("कार्यंत्त)") व्यक्त मान्य विद्यास्त पूर्वाना वितिष्टंत वितिष्टंत ("कार्यंत्त)") व्यक्त मान्य वित्त वितिष्टंत ("कार्यंत्त)") व्यक्त मान्य वित्त वितिष्टंत वितिष्टंत ("कार्यंत्ती") वित्त वितिष्टंत ("कार्यंत्ती") वित्त वितिष्टंत ("कार्यंत्ती") वित्त वितिष्टंत ("कार्यंत्ती") वित्त वितिष्टंत ("कार्यंत्ती वितिष्टंत "कार्यंत्राचेत वितिष्टंत ("कार्यंत्ती वितिष्टंत "कार्यंत्राचेत वितिष्टंत ("कार्यंत्राचेत वितिष्टंत "कार्यंत्राचेत वितिष्टंत ("कार्यंत्राचेत वितिष्टंत "कार्यंत्राचेत वितिष्टंत "कार्यंत्रचेत वितिष्टंत "कार्यंत्रच्ति "कार्यंत्रच्ति "कार्यंत्रच्ति "कार्यंत्रच्ति "कार्यंत्रच्याः "कार

www.evating.nsdl.com पर उपलब्ध है।

www.revolung.neoccum वर उपरच्या 11 मेरीनेट इं-पोटिंग 20 सितंबर, 2024 को सुबहं 9.00 बजे शुक्त होगी। (आईएसटी) और 19 2024 को शाम 9.00 बजे समापत होगा। (आईएसटी)। इस अवधि के दीरान, कट-जी पर मीतिक या इतेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले संपन्नी के सदस्य इतेक्ट्रॉनिक रूप से ज सकते हैं। इसके तुरंत बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉबदूल को वोटिंग के लिए अ

क्षित कार्यक्षी कार्यक्षी है। प्रहार महत्त्वी के तुम हो तो कार्य हैं –मेल पत्ते पंजीवृत्त नहीं किए हैं. वनसे अनुसंध है कि यदि संय पहुंच्यु:The रूप में एवं गए हैं तो में इसे उपने संस्कृति द्वियाजिय मामीदार के साथ और क्ष्मी व पीक्ट्रिय: कार्यक्षित मामान्दमेंट सिमिटेड के पास पंजीवृत्त करें, जैसा कि पोस्टल बैसेट नीटिश व दिए गए नीट्स में बताया गया हैं।

पोजनुद्दार अनावात अलाइनेपर (लागप्टक के पान पंजानुद्दा कर, जाना का मानदान बहर-मादान में क्रिया के प्राचन मंत्र हों।
कार्यों के गिरिशक मंद्रकों में मिश्रम और पार्टक बहर-मादान में क्रिया के स्वाचन के स्वचन के स्वाचन के स्वचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वचचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वाचन के स्वचचन के स्वचन के स्वचचन के स्वचचचन के स्वचचन के स्वचचन के स्वचचन के स्वचचन के स्वचचन के स्वचचन के स्वचचचन के shares@ssel.trivenigroup.com पर।

तिथि : 19 सितंबर, 2024 स्थान : शामली, यु.पी.

कृते सर शादी लाल एंटछाइजेज लिनिटे हस्ता./-अजय कुमार जैन कम्पनी सचिव

पर हिमेश ने अपने पिता की संगीत विरासत का एक दिलचस्प हिस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया कि विपिन रेशमिया ने एक गाना बनाया था जिसमें दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी। अफसोस की बात है कि यह गाना कभी रिलीज नहीं हुआ।

अनुष्का से मिले इस खास तोहफे को प्रियंका ने रखा है संभाल कर, सालों बाद अपनी दोस्त को कहा- थैंक्यू

ने सालों पहले एक फिल्म में साथ काम किया था और तब से ही दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। तभी तो सालों पहले अनुष्का से मिले तोहफे को प्रियंका ने अभी तक संभाले रखा है। चलिए जानते हैं इस तोहफे की क्या हैं खासियत। प्रियंका ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने चाचा चौधरी की टी–शर्ट पहनी हुई है, जो उन्हें रब ने बना दी जोड़ी की अभिनेत्री ने उपहार में दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा—मुझे अभी भी मेरी टी—शर्ट पसंद है। धन्यवाद अनुष्का ने ये टी—शर्ट प्रियंका को उनकी फिल्म 'दिल धड़कने दो' की शूटिंग के दौरान गिफ्ट के तौर पर दी थी। प्रियंका ने ब्लैक टी—शर्ट पहने हुए मिरर सेल्फी शेयर की है, जिस पर बाचा बीधरी के एक्सप्रेशन्स के प्रिंट थे उन्होंने ग्रे पैंट के साथ लुक को पूरा किया है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि बाबा बीधरी एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक बुक सीरीज है, जिसे कार्टनिस्ट



प्राण कमार शर्मा ने बनाया है इसे 1971 में हिंदी पत्रिका लोटपोट के लिए बनाया गया था चाचा का बहस्पति ग्रह से साबू नाम का एक विशालकाय दोस्त है जो बहुत ताकतवर है और जरूरत के समय में उनकी मदद करता हैं। वहीं प्रियंका की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपने पति गायक निक जोनास के जन्मदिन पर अपने पुराने को साझा किया, जब वे लंदन, यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्म कर रहे थे। अभिनेत्री ने लंदन में अपनी सबसे अच्छी रातों में से एक का आनंद लेते हुए निक और उनकी बेटी के साध्य कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इस बीच, काम के मोर्चे पर, प्रियंका रिचर्ड मैंडेन-स्टारर रसिटाडेलर के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रही हैं, जिसे रुसों ब्रदर्स के जो रुसो और एंथनी रुसो द्वारा निर्देशित किया गया है

FINANCIAL EXPRESS

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF NEELKANTH SURGICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED PARTICULARS DETAILS NEELKANTH SURGICAL INDUSTRIES Name of Corporate Debtor PRIVATE LIMITED Date Of Incorporation 10.10.2011 Of Corporate Debtor Authority under which Corporate ROC Kanpur Debtor is Incorporated / Registered Corporate Identity Number/Limited Liability U24233UP2011PTC046921 Identification Number of Corporate Debtor Address of the Registered Office and 27/9 B.N. Road Lal Bagh, Lucknow, Uttar Pradesh, India, 226001 Principal Office(if any) of Corporate Date of closure of Insolvency Resolution Process 17th September 2024 Liquidation commencement date of corporate debtor 17.09.2024 (Order Received on 18.09.2024) Name and registration number of the Shrayan Kumar Vishnoi insolvency professional acting as liquidator IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079 BCC Tower, 1008, 10th Floor, Arjungani, Address and e-mail of the liquidator, as Lucknow, UP- 226002. registered with the Board SHRAVAN.VISHNOI@YAHOO.COM BCC Tower, 1008, 10th Floor, Arjunganj, Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator Lucknow, UP- 226002. LIQUIDATORNEELKANTH@HOTMAIL.COM Last date for submission of claims 17.10.2024

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Allahabad Bench has ordered the commencement of liquidation of the M/s Neelkanth Surgical Industries Private Limited on 17.09.2024 (Order Received on 18.09.2024). The stakeholders of M/s Neelkanth Surgical Industries Private Limited are hereby called upon to

submit their claims with proof on or before 17th October 2024, to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. [In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate

Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38.1

Date: 20.09.2024 Place: Lucknow

Shravan Kumar Vishnoi IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079 AFA-No: AA2/10079/02/231124/203034

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our Warna

Branch located at B/5, CHCS

No.2132, Plot No.108, Kodoli (Tal)

Panhala, Maharashtra - 416214 wil

shift to Ground Floor, Shop No. 01.

Plot No.11, Co. Operative Housing

Society, Main Road, District

Kolhapur, Near Nagari Urban Bank

Talula - Panhala, Kolhapur

Maharashtra - 416114 from 26th

The Customers are requested to

contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our **Bramhapuri-**

Chandrapur Branch located at First

Floor, Karvat Complex, Above

Central Bank of India, Wadsa Road,

Bramhapuri, Maharashtra - 441206

will shift to First Floor. Plot No.1 and

Pohamil Plot, Survey No. 548/8, Plot

No.12, Balaji Nagar, Jhansi Rani

Square, Wadsa Road, Vidyanagar,

Maharashtra - 441206, from 23rd

The Customers are requested to

contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our Panipat-

Karnal Branch located at 3673/3.

Delux Complex, Saniay Chowk,

| NH-1, Panipat, Haryana - 132103

will shift to First Floor, Above

Punjab and Sind Bank, Behind of

PVR Cinema, Barsat Road,

132103 from 26th December, 2024.

The Customers are requested to

contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

their needs.

Panipat, Panipat, Haryana

Chandrapur,

Bramhapuri,

December, 2024.

their needs.

December, 2024.

their needs.



[See rule-8(1)]

POSSESSION NOTICE (for Immovable property)

The undersigned being the authorised officer of the Bank of India, Jhandewalan Extension under the Securitisation and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise f powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01.12.2023 alling upon the borrower Smt. Meera Dass and Shri Samrendra Dass and Mortgagor Smt. Meera Dass and Shri Samrendra Dass to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 47,06,286.85 (Fourty Seven Lakh Six Thousand, Two Hundred, Eighty Six and Eighty Five Paise) within 60 days from The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

corrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Inforcement) Rules, 2002 on this the 18th Day of September of the year 2024 The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs. 47,06,286.85 (Fourty Seven Lakh Six Thousand, Two Hundred, Eighty Six and Eighty Five Paise) and interest The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property All that part and parcel of the property consisting of Flat no. Y-203, Second

Floor, Tower-Y "Oxy Homez", Village Behta Hazipur, Bhopura Tilla Road, Pargana Loni, Tehsil distt - Ghaziabad, Uttar Pradesh in the name of Mrs. Meera Dass And Mr. samrendra Dass. On the North by : Entry Passage then Flat no. 208

On the South by : Lift & Flat no. 202 On the East by : Flat no. 204

On the West by : Open area and park

Date: 20.09.2024

Sd/- Authorized Officer (Bank of India, Jhandewalan Extension) Place: New Delhi



TATA POWER (Corporate Contracts Department) Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India

(Board Line: 022-67173994) CIN: L28920MH1919PLC000567 NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for following Services: CC25FK060 - Security Services at Jojobera Plant, Jamshedpur

Jharkhand for a period of three years

CC25FK065 - Guest House Services at Tata Power Noida Office for a period of two years

CC25FK066 - Facility Management Services at Tata Power Noida Office for a period of two years CC25FK067- Security Services at Tata Power Noida Office for a period

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL

https://www.tatapower.com/tender). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 30" September 2024.



Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden Jaipur, Rajasthan, India, 302001.

www.aubank.in LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 25 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

DELHI - DWARKA - 24660001046634 24660001142433 24660001214218

NEW DELHI - MALVIYA NAGAR - 24660000729696 | NEW DELHI- RAJOURI GARDEN - 24660000112857 24660000155865 24660000887667 24660000903119 24660001351019 | RAJOURI GARDEN DELHI 9001090137986380

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-Manager

AU Small Finance Bank Limited

UGRO

U GRO CAPITAL LIMITED

4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kurla, Mumbai 400070 POSSESSION NOTICE APPENDIX IV (See rule 8(1)) (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of UGRO Capital Limited, having its registered office at 4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kurla, Mumbai 400070 and Poonawalla Fincorp Limited having its registered office at 601, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pingle Wasti, Pune- 411036, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice to repay the amount mentioned in the notice together with interest thereon, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on the day, month and year mentioned below. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of UGRO Capital Limited for the amount mentioned in the notice together with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

BORROWER DETAILS **Demand Notice** POSSESSION DATE 1. M/s Davinder Water Shop 2. Mr. Davinder Demand Notice dated 21.05.2024 17-09-2024 3. Mrs. Pragati 4. Mrs. Kailash Devi for an amount of Rs. 52.64.042/-Loan Account Number: HCFDELSEC00001035134 as on 14.05.2024 Mortgaged Property: "All that piece and parcel of immovable property bearing no.4678 having admeasuring area 55.18 Sq.Mtrs., i.e., 66 Sq.Yds., out of Khasra No. 478/153 situated in the area of Village Seelampur, in the abadi of Gali No.3, Ajit

Nagar, Gandhi Nagar, Pin code - 110031. Butted and bounded on the East by Property of Other, on the West by Gali 12 Ft. Wide, on the North by Property of Others Sh. Prayeen, on the South by Property of Others Sh. davinder." SD/- Soham Bhattacharva - Authorised Officer - UGRO Capital Limited Date: 20.09.2024. Place: Delhi

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Jal Jeevan Mission- CWSS to Karimba, Kongad and Mundur GPs- Reappropriation-Construction of 13 LL OHSR at Parackal in Karimba Panchayath including laying of pipe line in the uncovered areas of Karimba, Kongad and Mundur Panchayaths. EMD: Rs. 200000, Tender fee: Rs. 11025, Last Date for submitting Tender: 03-10-2024 03:00: pm Phone: 04912544927 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in **Superintending Engineer**

PH Circle

Palakkad

KWA-JB-GL-6-611-2024-25

Modern Engineering and Projects Limited Shaping the Road Ahead

MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED

Modern Engineering and Projects Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated as Singtom Tea Co. (1946) Limited under the Companies Act, 1913 at Calcutta on February 26, 1946. The name was changed to Modern Convertors Limited on May 18, 1976 vide a fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was once again changed to its current name Modern Engineering and Projects Limited on December 03, 2021 vide a fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Our Registered Office has been shifted from the state of West Bengal to Maharashtra vide the Order of the Regional Director dated December 17, 2021 which was registered with Registrar of Companies. Mumbal vide Certificate of Registration of Regional Director Order for change of State dated April 28, 2022. For details of changes in the name and in the registered office of our Company, refer chapter titled "General Information" on page 36 of the Letter of Offer.

Registered Office: 103/4, Plot 215, Free Press House, FL-10 Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021, Maharashtra; Tel: +91 66666007 Fax: N.A.

Contact Person: Sanjay Jha, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@mep.ltd; Website: www.mep.ltd Corporate Identification Number: L01132MH1946PLC381640

OUR PROMOTERS: JASHANDEEP SINGH, VAISHALI S MULAY, SHASHIKANT BHOGE AND JETRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,23,60,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹40 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹4944.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF FOUR(4) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, AUGUST 26, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 178 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

Issue Programme: NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

RIGHTS ISSUE OPEN

Last date for receipt of Rights Issue Application forms is extended up to Wednesday, September 25, 2024



Simple, Safe, Smart way of Application -Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section

PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 179 of the Letter of Offer.

Kindly note that Non-Resident Investors can apply in this Issue using the ASBA mode only. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For

details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 183 of the Letter

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform the Eligible shareholders of the Company that the date of Closure of the Rights issue which opened on Thursday, September 05, 2024 and was scheduled to close on Friday, September 20, 2024 has now been extended by the Company to Wednesday, September 25, 2024 by the Rights issue Committee of the Board of Directors in its Meeting held on September 19, 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise the rights in the Rights Issue Accordingly, Last date of submission of the duly filled Rights Issue Application forms is extended upto Wednesday, September 25,

2024 (i.e. Issue Closing Date) PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON

RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE FRIDAY. SEPTEMBER 20, 2024 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM. Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be

allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date i.e. September 25, 2024 or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Terms of the Issue-Basis of Allotment" on page 198 of the Letter of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS WEDNESDAY SEPTEMBER 25, 2024. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT IN THE MODIFICATION OF THE LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION AND THE ISSUE CLOSING DATE: RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

Registrar to the Issue



Unit No. 9, Ground Floor, Shiy Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai, 400011, Maharashtra Contact Details: +91-22-4961 4132/ +91-22-3199 8810 Email: newissue@purvashare.com:

Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number: INR000001112

b. EMD (Rs)

d. 19-09-2024

Company Secretary and Compliance Officer Modern Engineering

and Projects Limited Shaping the Road Ahead MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED

Registered Office: 103/4, Plot 215, Free Press House, FL-10 Free Press Journal Marg. Nariman Point, Mumbai 400 021, Maharashtra

Tel: +91 66666007 Fax: N.A. E-mail:cs@mep.ltd Website: www.mep.ltd For MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sitaram Dhulipala Managing Director

DIN: 03408989



Borrower / Guarantors /

Mortgagor

Name of the

Recovery Section, Central Regional Office, 6th Floor, Ansal Tower, 38, Nehru Place, New Delhi - 110019 Ph.: 011-26281530, 26414751

Place: Mumbai

Date: September 19, 2024

E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable property mortgaged/hypothecated charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by Canara Bank., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on below mentioned dates through E-Auction. For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in M/S C1 INDIA, Mr. Mithalesh Kumar, Mr. Shibu Babu having mobile no- 7080804466 / 9891628914 email: delhi@c1india.com , mithalesh.kumar@c1india.com, shibu.babu@c1india.com or Canara Bank's website www.canarabank.com.

Total Duge

EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer or shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of Canara Bank as below mentioned dates. Date & Time of a. Reserve Price (Rs)

No.	Branch	Name & Address	status of possession	Total Dues	c. Incremental Bid (Rs) d. Date of Notice	IFSC Code	extensions of 5 minutes duration each)	of EMD	& Con
1	NANDNAGRI	D 516/6 GALLNO 8	MODEL - XCENT, BODY - SALOON, COLOR - WHITE, MANUFACTURER - HYUNDAI, REGISTRATION NO DL1RTA5473, MANUFACTURE MONTH - 01/2016, CHASIS NO - MALA741CLGM162896, ENGINE NO G4LAGM934280	31.08.2024 plus further	b. 11,000/- c. 2,000/-	A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0019117	09-10-2024 between 12:00 Noon to 01:00 PM	07.10.2024 up to 05.00 p.m.	26-0 28- betwee to 5

Intending bidders may contact for properties during office hours on any working day for other details and inspection of properties Date: 19-09-2024, Place: New Delhi

(under Physical Possession)

Details of movable property and

financialexp.epapr.in

Account

Number &

Auction

(With unlimited

GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LTD. Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara, India - 390007 Ph. 91-265-6612133, Fax: 91-265-2341588 E-mail: cepnp.gsecl@gebmail.com Website: www.gsecl.in CIN: U40100GJ1993SGC019988

Tender No. GSECL / PP / BD / GUVNL / PSP Tender ID: 109252

The Chief Engineer (P&P), Gujarat State Electricity Corporation Limited, Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara - 390 007, Gujarat, Tender For "Appointment of consultant for the Work for Feasibility Study and preparation of Detailed Project Report (DPR) for Pumped Storage Hydro Power Project at various locations in Gujarat."

Tender Documents & Specifications may be downloaded from Web site https://gsecitender.nprocure.com/(Tender ID:109252) (For view, download and on line submission) and GUVNL / GSECL web sites www.guvnl.com & www.gsecl.in (For view & download only) from 18.09.2024 onwards.

Note: Be remain updated with above Web Sites for any notices/ amendments/ clarifications etc. till opening of Tender.

> Chief Engineer (P&P) **Gujarat State Electricity Corporation Limited** "POWERING GUJARAT"

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED CIN: L51909UP1933PLC146675

Registered office: Upper Doab Sugar Mills, Shamli-247 776, Uttar Pradesh Website: www.sirshadilal.com, E-mail: shares@ssel.trivenigroup.com Phone: 01398-250064, Fax: 01398-250032

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED (the "Company"), pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended "Management Rules") read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and the latest once being General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the following agenda items are proposed for consideration by the Members of the Company for approval by means of Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting").

To consider and approve appointment of Ms. Ratna Dharashree Viswanathan (DIN: 07278291), as an Independent Director (in the capacity of Non-Executive Independent Director) of the Company for a term of Two consecutive years with effect from September 18, 2024 (Special Resolution). In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal

Ballot Notice, by electronic means only, on Thursday, September 19, 2024 to those members of the Company whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/ Depositories, respectively, as at close of business hours on Friday, September 13, 2024 (the 'Cut-off date') and whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.sirshadilal.com, websites of the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members whose names appeared on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on

the Cut-off date are entitled to vote on the Resolutions as set forth in the Postal Ballot Notice. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity shares held by them as on the Cut-off date. A person who is not a member as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. n compliance with MCA circulars, the Company has provided only the remote e-voting facility to its

Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal

Ballot form. The communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote a-voting system. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating remote e-voting to enable the members to cast their votes electronically only. The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. Remote e-voting shall commence at 09:00 a.m. (1ST) on Friday, September 20, 2024 and shall end at 05:00 p.m. (1ST) on Saturday, October 19, 2024. The remote a-voting facility will be disabled for voting by NSDL upon expiry of the aforesaid voting period. Members who not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with

their respective depository participant in case the shares are held in electronic form and with the Company's registrar Alankit Assignment Limited as detailed in notes to the Postal Ballot notice The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Leena Jain, Practicing Company Secretaries (CP No4946/ M.No 10296) New Delhi as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be announced within two working days from the last date of voting and will also be simultaneously displayed on the notice board of the Company at its Registered Office and Corporate Office. The results will also be uploaded on the website of the Company, website of NSDL and will also be intimated to BSE. In case of any queries I grievances connected with voting by electronic means, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting @nsdl.co.in or at telephonic number 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. You may also refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of https://evoting.nsdl.com. In case of any queries related to Postal Ballot Notice or in case any member, whose name appears in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the cut-off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to shares@ssel.trivenigroup.com.

For Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.

Date: 19.09.2024 Place: Shamli (U.P.)

> **RULKA ELECTRICALS LIMITED** (FORMERLY KNOWN AS "RULKA ELECRTICALS PRIVATE LIMITED)

Reg. Off:- A-20, Shiva Industrial Estate, Lake Road, Bhandup (West) Mumbai - 400 078, India. E mail Id- Info@relservices.in | Website: www.relservices.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY Notice is hereby given that

- ELECTRICALS LIMITED (Formerly known as "RULKA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED") ('the Company') will be held on Monday the 30th September, 2024 at 1.30 p.m. through Video Conferencing ('VC') facility or Other Audio-Visual Means (OAVM') to transact the business as set forth in the notice of AGM. In compliance with all applicable provision of the Companies Act 2013 and the rules made there under and Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 read with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars"), has permitted companies to conduct Annual General Meetings ("AGMs") via video conferencing or any other audio visual means (OAVM) without the physical presence of the members at a common venue, pursuant to compliance with provisions outlined in paragraphs 3 and 4 of MCA General Circular no. 20/2020. Concurrently, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has, through its circulars numbered SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 ("SEBI Circulars"), provided relaxations from certain provisions of the Companies Act and SEBI. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM. Member participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- Secretarial Standard- issued by ICSI, the manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting i.e. by casting votes electronically. The Company has engaged Big Share Services Private Limited (hereinafter referred to as "Big share") for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions proposed in the Notice of 11th AGM. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year
- Company / Depository Participants. The same are also available on the website of the Company at https://www.relservices.in/ and can also accessed from the website of National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/ and Registrar and Transfer agent of the Company www.bigshareonline.com. The voting period begins on Thursday, September 26, 2024 at 09.00 a.m. and ends on Sunday, September 29, 2024 at 05:00 p.m. During this period

shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in

dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Monday, September 23, 2024 may cast their vote electronically. The evoting module shall be disabled by Bigshare for voting thereafter. Shareholders who have already voted prior to the meeting date will not be entitled to vote at the meeting venue. 5. A person, whose name appears in the register of members or in the register of

during the 11th AGM. In case shareholders/investors have any queries regarding a virtual meeting, you may

https://ivote.bigshareonline.com, under the download section or you can email us

For, Rulka Electricals Limited (Formerly known as "Rulka Electricals Private Limited")

Date: 03.09.2024

New Delhi

Place: Mumbai

The property Last Date & can be inspected. Time of

with Prior ointment with ontact person 5-09-2024 to 28-09-2024 reen 10.00 A.M

5.00 P.M., Mr. BRIJ MOHAN, Mobile No 9053041881

Authorised Officer, Canara Bank

Ajay Kumar Jain Company Secretary

CIN: U31103MH2013PTC243817

. The 11th Annual General Meeting ("AGM") of the members of RULKA

2. In compliance with Regulation 44 of Listing Regulations, the MCA Circulars, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the

2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with

beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off dates only shall be entitled to avail the facility of casting vote either through remote e-voting or evoting

refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) available at

By Order of the Board

Company Secretary and Compliance Officer

at ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

रिज, कार्यालय : अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली 247776 (यू.पी.) CIN: L51909UP1933PLC146675 वेबसाइट : www.sirshadilal.com ई—मेल : shares@ssel.trivenigroup.com **फोन** : 01398-250064 फैक्स : 01398-250032

सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

डाक मतपत्र सूचना

एतदद्वारा कंपनी के सदस्यों को सुचित किया जाता हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) वि धारा 108; 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, साध में पठित कंपनीज (प्रवंधन और प्रशासन नियमन, 2014 (**"नियमन"**) के नियम 20 और 22 एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए परिपत्र")** हार जारी साधारण परिपत्र संख्यायें 14/2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020 और परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 9 / 2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं अन्य लागू परिपत्र सिक्योजिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 (**"लिस्टिंग नियमन"**) के नियमन 44, सामान्य बैठकों में सचिवीय मानक ("एसएस-2" और अन्य लागू कानूनों, नियमों और नियमनों (किसी भी वैधानिक संशोधन अधवा उस समय लागू होन् वाले पुनः अधिनियमन सहित), के अनुसरण में सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी") डाक मतपत्र सूचना दिनाक 18 सितंबर 2024 में निर्धारित किये गए निम्नांकित विशेष व्यवसार को केवल रिमोट ई--मतदान प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों द्वारा सम्पादित करने का प्रस्ताव है। कंपनी के रवलंत्र निदेशक के रूप में Ms. Ratna Dharashree Viswanathan (डीआईएन : 07278291) कं नियुक्ति लगातार दो वर्षों के लिए जिनका कार्यकाल 18 सितंबर, 2024 से 17 सितंबर, 2026 तक होग जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कन्पनी ने शुक्रवार, सितंबर 13, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को व्यवसाय समय बंद होने तक कम्पनी के उन सदस्यों को जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर या कम्पनी एवं डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लागार्थी स्वामियों की सूची क्रमश: में दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कम्पनी एवं डिपॉजिटरी के यह पंजीकृत हैं उन्हें बृहस्पतिवार, सितंबर 19, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्रेषित कर दी है।

सदस्यों / लागार्थी स्वामियों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की युकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी मालिकों की सूची मे दिखाई देंगे. उन्हें ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। जो व्यक्ति अंतिम तिथि के बाद सदस्य बनता है उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

पोरटल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सबेंज यानी बीएसई

लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग 20 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी। (आईएसटी) और 19 अक्टूबर,

2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। (आईएसटी)। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके तुरंत बाद NSDL द्वारा रिगोट ई-वोटिंग मॉडबूल को वोटिंग के लिए अक्षम

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं तो वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के साथ और कंपनी के रजिस्ट्रार अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के पास पंजीकृत करें, जैसा कि पोस्टल बैलेट नोटिस मे

दिए गए नोट्स में बताया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिगोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए सुश्री लीना जैन, प्रैविटसिंग कंपनी सचिव (सीपी नंबर 4946 / एम. नंबर 10296) नई दिल्ली को संवीधक नियक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएग और साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। नतीजे कंपनी की देबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, आप सुश्री पल्लवी म्हान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting / nsdl.co पद पर या टेलीफोन नंबर 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। शेयरधारके के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और https://evoting.nsdl.com. के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल मी देखें। पोस्टल बैलेट नोटिस से संबंधित bसी भी प्रश्न के मामले में या यदि कोई सदस्य, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यी रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सुची में हैं. को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह लिख सकत है shares@ssel.trivenigroup.com पर।

> कते सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड हस्ता./

तिथि : 19 सितंबर, 2024 स्थान : शामली, यू-पी-

अजय कुमार जैन कम्पनी सचिव FCS-5826

to view the DRHP)

प्रॉसेस ईमेल आईडी

तिथि: 20.09.2024

स्थानः नई दिल्ली

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069, महाराष्ट्र जीएसटी संख्याः 27AAACD9887D1ZC कॉपोरेंट पहचान संख्याः L24231MH1994PLC334457

सार्वजनिक सुचना

जनता को सुचित किया जाता है कि गिरवी रखे सोने के गहनों की नीलामी टुकैप फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 24 सितम्बर, 2024 को त्रिनगर में 11:00 बजे पूर्वाह्न आयोजित की जाएगी। शाखा का पताः टुकैप फाइनेंस लिमिटेड 2993, पुराना बस स्टैण्ड रोड (मेन रोड), त्रि नगर

नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के ऋण खातों से संबंधित हैं जो अपने बकाया का भगतान करने में विफल रहे हैं। नीलामी के हमारे नोटिस इन कर्जदारों को विधिवत जारी किए गए हैं।

नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित हैं. जिनका शाखा नाम के साथ नीचे उल्लेख किया गया है।

: GL0000000132428.GL0000000134692 GL0000000135905.GL0000000159278.GL0000000161889.GL0000000163356 GL0000000199767.GL0000000201311.GL0000000203261 GL0000000204631, GL0000000208862, GL0000000208984, GL0000000209395 GL0000000209492,GL0000000210344,GL0000000124908 GL0000000126659,GL0000000129874.

किराड़ी शाखा : GL0000000159003.GL0000000167722.GL0000000168324 GL0000000168393,GL0000000199489,GL0000000199963,GL0000000200977 GL0000000201480, GL0000000201837, GL0000000202714 GL0000000204440, GL0000000207435, GL0000000208203, GL0000000229974 GL0000000120255.

मयूर विहार शाखा : GL0000000166810,GL0000000171025,GL0000000203106 GL0000000205488, GL0000000207285, GL0000000208743 GL0000000209817.GL0000000219676.GL0000000121118.GL0000000122126. GL0000000128373,GL0000000133139.

उत्तरी घोंडा शाखा : GL0000000079141,GL0000000079750 GL0000000095390, GL0000000115376, GL0000000116503, GL0000000136280 GL0000000140540, GL0000000143350, GL0000000154350 GL0000000155288,GL0000000155294,GL0000000155899,GL0000000158434 GL0000000165560,GL0000000167255,GL0000000168770 GL0000000172094, GL0000000186424, GL0000000188495, GL0000000195606 GL0000000204880,GL0000000207676,GL0000000210314 GL0000000210893,GL0000000213006,GL0000000125100

: GL0000000090193, GL0000000092581, GL0000000101041 GL0000000101064,GL0000000101123,GL0000000120927 GL0000000120893, GL0000000120899, GL0000000121088, GL0000000121140 GL0000000128203, GL0000000140349, GL0000000153678 GL0000000153755,GL0000000154814,GL0000000154754,GL0000000154795 GL0000000154939.GL0000000154940.GL0000000154963 GL0000000155020,GL0000000155295,GL0000000155275 GL0000000155361,GL0000000155367,GL0000000164658,GL0000000169894 GL0000000169920,GL0000000169911,GL0000000171516. GL0000000171661,GL0000000174667,GL0000000174677,GL0000000174719 GL0000000175819.GL0000000178609.GL0000000178864 GL0000000178992,GL0000000179529,GL0000000179602,GL0000000180136 GL0000000180796.GL0000000180847.GL0000000185973 GL0000000192035, GL0000000205179, GL0000000205464, GL0000000206638 GL0000000207198,GL0000000207568,GL0000000207586 GL0000000208228,GL0000000210492,GL0000000213158,GL0000000223043 GL0000000225328, GL0000000227153, GL0000000233133, GL0000000242185,GL0000000246155,GL0000000121009,GL0000000121049 GL0000000128116,GL0000000129281,GL0000000131186.

रानी बाग शाखा : GL0000000119220,GL0000000148185,GL0000000190920, GL0000000196693, GL0000000200272, GL0000000200968, GL0000000205637 GL0000000208066, GL0000000208515, GL0000000209184 GL0000000210233,GL0000000211080,GL0000000231814,GL0000000234958 GL0000000235118,GL0000000244578,GL0000000245229 GL0000000118030,GL0000000126603.

: GL0000000177821,GL0000000198313,GL0000000219789, GL0000000220858, GL0000000232836, GL0000000232895, GL0000000241487.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ट्रकैप फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्तिः सतीश कमार

संपर्क नंबर: 9560735444

टुकैप फाइनेंस लिमिटेड के पास नीलाम किए जाने वाले खातों की संख्या में बदलाव करने और/बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

टुकैप फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र जी

लेजेण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड जो हाइड्रो पावर एवं गैर-परम्रागत ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन वितरण, बिक्री तथा अन्य व्यवसाय की प्रचालन सुवधाओं/ प्रचालनों में संलग्न है, के लिये अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव

प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1)					
के अंतर्गत					
संबंधित विवरण					
1.	पैन/सिन एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट डेब्टर	लेजेंड पावर प्राइवेट लिमिटेड			
	का नाम	सीआईएनः U74999DL2007PTC205925			
		पैनः AABCL3683Q			
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 103, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 6,			
		जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली-110044			
3.	वेबसाइट की यूआरएल	एनए			
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिसंख्य निर्धारित	एनए			
	परिसम्पत्तियाँ अवस्थित हैं।				
5.	मैन उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं है			
6.	पिछले वित्त वर्ष में बिक्री की गई मुख्य	एफ.वाई. 2022-23 के लिये-निल			
	उत्पादों/सेवाओं की मात्रा	एफ.वाई. 2023-24 के लिये-निल			
7.	कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या	0 (निल)			
8.	पिछले दो वर्षों के उपलब्ध वित्तीय वित्तीय विवरणों	cirp.legendpower@gmail.com पर मेल से			
	(अनुसूची के साथ), क्रेडीटरों की सूची, प्रक्रिया	अनुरोध की जा सकती है।			
	के परवर्ती कार्यक्रमों के संबंधित तिथियों सहित				
	विस्तृत विवरण यूआरएल पर उपलब्ध है:				
9.	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत प्रस्ताव	cirp.legendpower@gmail.com पर मेल से			
	आवेदकों की पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध हैः	अनुरोध की जा सकती है।			
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	05.10.2024 को या पूर्व			
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची	15.10.2024 को या पूर्व			
	जारी करने की तिथि				
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्तियाँ जमा करने की	20.10.2024 को या पूर्व			
	अंतिम तिथि				
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी	30.10.2024 को या पूर्व			
	होने की तिथि				
14.	~ ~ ~	04.11.2024 को या पूर्व			
	संभावित प्रस्ताव आवेदकों के लिये प्रस्ताव				
	योजना के लिये अनुरोध जारी करने की तिथि				
15.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	04.12.2024 को या पूर्व			
16.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिये	cirp.legendpower@gmail.com			

बिहारी लाल चक्रवर्ती समाधान पेशेवर लेजेंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए रजि. क्रमांक: IBBI/IPA-002/IP-N00863/2019-2020/12776 राजि. पताः जीसी 901 आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201014

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरूग्राम हरियाणा-122016

जबिक, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 (2002 का 54)के तहत सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जार किया जिसमें उधारकर्ता / ओं को यहां दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त[े] नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ नोटिस रें उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

उक्त उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता राशि को चुकाने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया[ँ] जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन् अधिनियम 2022 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस तिथि को सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर पूर्ण भुगतान तव संबंधित तिथियों से भावी ब्याज, लागत और प्रभार के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वे

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) वे

क्रं सं.	उधारकर्ता,सह—उधारकर्ता का नाम और ऋण	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि रु. में	
1.	खाता सं. 1. दिनेश पुत्र भंवर लाल	मधुरानियों की ढाणी, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर में संपत्ति स्थित	12.07.2024 कब्जूT	रु. 10,63,058 / — (मात्र दस लाख	
	(उधारकर्ता) 2. मोनिका पंवार पुत्री मदन लाल	है, जिसका क्षेत्रफल 156.51 वर्ग गज या 1408.625 वर्ग फीट या 130.86 वर्ग मीटर है। निम्नलिखित अनुसार	दिनां क 27.09.2024	तिरसठ हजार अड्डावन रुपये) 10 जून 2024 तक	
(सह-उधारकर्ता) ऋण संख्या LAPLD1122- 00006322		परिबद्ध— पूर्व— नेमी चंद माली, पश्चिम— गली ६' और खुला प्लॉट, उत्तर—जेठा लाल माली, दक्षिण— 19'६ चौड़ी सड़क। (पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 336, पृष्ठ संख्या 44, क्रम संख्या 202203091103874 पर दिनांक 18.10.2022 को पंजीकृत)"			
2.	1. रमेश कुमार पुत्र डूंगर दास (उधारकर्ता) 2. भंवरी देवी पत्नी रमेश कुमार (सह—उधारकर्ता) ऋण संख्या	पट्टा संख्या 174, लटियाल मंदिर के पास, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित संपत्ति, क्षेत्रफल 1236 वर्ग फीट, या 137.33 वर्ग, गज,114.82 वर्ग मीटर, निम्नानुसार परिबद्धः पूर्व—दमार रोड,	12.07.2024 कब्ज़ा दिनांक 27.09.2024	रु. 3,11,949 / —(रुपये तीन लाख ग्यारह हजार नौ सौ उनचास मात्र) 10 जून 2024 तक	
LAPLD0623- 00007983		पश्चिम— सुरेश / डूंगर राम का घर, उत्तर— किशोर / हरजी राम का घर, दक्षिण— ओम प्रकाश / डूंगर दास का घर।(दिनांक 23.09.2022 को पुस्तक संख्या 1, खंड सं. 333, पृष्ठ संख्या 160, क्रम संख्या 202203091103390 पर पंजीकृत)			
3.	1. भरत कुमार सेन पुत्र रामेश्वर लाल सेन (उधारकर्ता) 2. कविता सेन पत्नी भरत कुमार सेन (सह—उधारकर्ता)	ग्राम पंचायत, गिलुंड, पंचायत समिति रेलमगरा, तहसील और जिला राजसमंद में स्थित पट्टा संख्या 6408,क्षेत्रफल 687.13 वर्गफीट। सीमा निम्नानुसार हैः पूर्व—आम रास्ता ,पश्चिम : हरिराम का घर ,उत्तर	12.07.2024 कब्ज़ा दिनांक 27.09.2024	रु.14,71,310 / – (रुपये चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ दस मात्र) 10 जून 2024 तक	

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

उधार उधार डिमांड	र्कृतीओं, सह–उधारकर्ताओं और नोटिस और उसके तहत दाव	गारंटरों का विवरणों,प्रतिभूतियों, बकाया ा की गई राशि और कब्जे की तारीख क	देयताओं, धारा 1: ग विवरण निम्नानु	3(2) के तहत भेजे गए सार दिया गया हैः	
क्रं सं.	उधारकर्ता,सह—उधारकर्ता का नाम और ऋण खाता सं.	अचल संपत्ति का विवरण मधुरानियों की ढाणी, फलोदी, तहसील	मांग सूचना दिनांक 12.07.2024	बकाया राशि रु. में रु. 10,63,058 / —	
1.	1. दिनेश पुत्र भंवर लाल (उधारकर्ता) 2. मोनिका पंवार पुत्री मदन लाल (सह—उधारकर्ता) ऋण संख्या LAPLD1122— 00006322	फलोदी, जिला जोधपुर में संपत्ति स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 156.51 वर्ग गज या 1408.625 वर्ग फीट या 130.86 वर्ग मीटर है। निम्नलिखित अनुसार परिबद्ध— पूर्व— नेमी चंद माली, पश्चिम— गली 6' और खुला प्लॉट, उत्तर—जेठ लाल माली, दक्षिण— 19'6 चौड़ी सड़क। (पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 336, पृष्ट संख्या 44, क्रम संख्या 202203091103874 पर दिनांक 18.10.2022 को पंजीकृत)			
2.	1. रमेश कुमार पुत्र डूंगर दास (उधारकर्ता) 2. भंवरी देवी पत्नी रमेश कुमार (सह—उधारकर्ता) ऋण संख्या LAPLD0623- 00007983	पद्टा संख्या 174, लिटयाल मंदिर के पास, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित संपत्ति, क्षेत्रफल 1236 वर्ग फीट, या 137.33 वर्ग, गज,114.82 वर्ग मीटर, निम्नानुसार परिबद्धः पूर्व—दमार रोड, पश्चिम— सुरेश/डूंगर राम का घर, उत्त ओम प्रकाश/डूंगर दास का घर।(दिनांव सं. 333, पृष्ठ संख्या 160, क्रम संख्या :	रू 23.09.2022 को	पुस्तक संख्या 1, खंड	
3.	1. भरत कुमार सेन पुत्र रामेश्वर लाल सेन (उधारकर्ता) 2. कविता सेन पत्नी भरत कुमार सेन (सह—उधारकर्ता) ऋण संख्या LAUDP0923	ग्राम पंचायत, गिलुंड, पंचायत समिति रेलमगरा, तहसील और जिला राजसमंद में स्थित पट्टा संख्या 6408,क्षेत्रफल 687.13 वर्गफीट। सीमा निम्नानुसार है: पूर्व—आम रास्ता ,पश्चिम : हरिराम का घर ,उत्तर :भागीरथ, रतन शर्मा का घर, दक्षिण—गणपतलाल आचार्य का मकान। 1 खंड संख्या 196. पष्ठ संख्या 69. व्र			
	भरत कुमार सेन (सह–उधारकर्ता) ऋण संख्या	,पश्चिम : हरिराम का घर ,उत्तर :भागीरथ, रतन शर्मा का घर,	(दिनांक 12.04.20	2024 तक 013 को पुस्तक संख्य	

द्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, ए विंग, डी.जे. हाउस, ओल्ड नागरदास रोड, अधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, जीएसटी नंबरः 27AAACD9887D1ZC

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L64920MH1994PLC334457 सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि टूकैप फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 24 सितंबर 2024 को नोएडा सेक्टर–18 में सुबह 11:00 बजे गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी की जाएगी।

शाखा का पताः ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड, नोएडा सेक्टर—18, प्रथम तल कार्यालय संख्या १०२. विशाल चौंबर सेक्टर-18. नोएडा-201301 नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के ऋण खातों से

संबंधित हैं, जो अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इन उधारकर्ताओं को नीलामी के हमारे नोटिस विधिवत जारी किए गए हैं। नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के अतिदेय ऋण

खातों से संबंधित हैं, जिनका उल्लेख नीचे शाखा के नाम के साथ किया गया है। गाजियाबाद शाखाः : GL0000000203469,GL0000000211588,GL0000000220933 GL0000000221302,GL0000000223295,GL0000000228246,GL0000000245452 GL0000000114585.

नोएडा भंगेल शाखाः : GL0000000158994,GL0000000163543 GL0000000182191.GL0000000184414.GL0000000184417.GL0000000187042 GL0000000200669,GL0000000201543,GL0000000203414,GL0000000204122 GL0000000204643,GL0000000205293,GL0000000205818,GL0000000206487 GL0000000207093,GL0000000207263,GL0000000208027,GL0000000208285 GL0000000209039,GL0000000210564,GL0000000211919,GL0000000220798 GL0000000222606, GL0000000233712, GL0000000236214, GL0000000245184 GL0000000113949,GL0000000114226,GL0000000116911,GL0000000118761 GL0000000119098,GL0000000126253,GL0000000127765,GL0000000128081

नोएडा सेक्टर—18 शाखा : GL0000000097105.GL0000000102136 GL0000000130876,GL0000000132915,GL0000000133392,GL0000000135562 GL0000000137336,GL0000000137758,GL0000000157627,GL0000000163477 GL0000000164831,GL0000000168402,GL0000000170359,GL0000000170549 GL0000000200637,GL0000000204435,GL0000000204680,GL0000000204897 GL0000000208064,GL0000000210634,GL0000000211415,GL0000000196002 GL0000000111911,GL0000000118957,GL0000000119529,GL0000000121054 GL0000000122659,GL0000000123081,GL0000000123479,GL0000000131997

GL0000000132083.GL0000000132097.GL0000000133475, GL0000000134309. अधिक जानकारी के लिए कृपया ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्तिः सतीश कुमार

प्राधिकृत अधिकारी.

संपर्क नंबर: 9560735444 ्रिट्रकैप फाइनेंस लिमिटेड बिना किसी पूर्व सूचना के नीलाम किए जाने वाले खातों की संख्या में परिवर्तन करने और / या नीलामी को स्थगित / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

द्वकैप फाइनेंस लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



स्थानः गुरुग्राम,

दिनांकः 19.09.2024

NTPC GREEN ENERGY LIMITED

NTPC Green Energy Limited (our "Company" or the "Issuer") was incorporated as "NTPC Green Energy Limited", a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated April 7, 2022, issued by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana, For further details, see "History and Certain Corporate Matters" on page 223 of the draft red herring prospectus dated September 18, 2024 (the "DRHP" or the "Draft Red Herring Prospectus"). Registered Office: NTPC Bhawan , Core -7, SCOPE Complex 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003, Delhi, India

Corporate Office: Renewable Building Netra Complex, E3 Main Market Road Ecotech II Udyog, I.A. Surajpur, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, India, 201306 Contact Person: Manish Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 11 2436 2577; E-mail: ngel@ntpc.co.in; Website: www.ngel.in; Corporate Identity Number: U40100DL2022GOI396282

OUR PROMOTERS: PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA AND NTPC LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [◆] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF NTPC GREEN ENERGY LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [◆] PER EQUITY SHARES

THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [♦] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[♦] MILLION (CONSTITUTING UP TO [♦]% OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AGGREGATING UP TO ₹|●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE SHAREHOLDERS ("SHAREHOLDERS' RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [•] % (EQUIVALENT OF * [•] PER EQUITY SHARE) TO THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SHAREHOLDERS' RESERVATION PORTION IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WOULD CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY, OF OUR POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [...] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND, THE EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company, may in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), read with Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis as decided by our Company in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion on a location on a location on the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. If at least 75% of the Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("NIBs") of which (a) one-third portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹0.20 million; and (b) two-thirds portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million; provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIB") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. Furthermore, up to [●] Equity Shares, aggregating up to ₹(●) million shall be made available for allocation on a proportionate basis only to Eligible Shareholders bidding in the Shareholders Reservation Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (defined hereinafter), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "Issue Procedure" beginning on page

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with SEBI and Stock Exchanges on September 18, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, where the equity shares are proposed to be listed, the websites of the BRLMs, i.e., IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com, HDFC Bank Limited at www.hdfcbank.com, IIFL Securities Limited at www.iificap.com and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and the website of our Company at www.ngel.in. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein in relation to the Issue on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issuer and the Issuer and the Issuer and the Issuer. accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 28 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring Prospectus") has been filed with the RoC, National Capital Territory of Delhi and Haryana and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 100,000.00 MILLION (THE "ISSUE").

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 223 of the DRHP. he liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" or

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS REGISTRAR TO THE ISSUE HDFC BANK **IIFL** SECURITIES nuvama

(1) IDBI capital

IDBI Capital Markets & Securities Limited 6th Floor, IDBI Tower WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai - 400 005, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4069 1953 E-mail: ngel.ipo@idbicapital.com Investor Grievance E-mail: redressal@idbicapital.com Website: www.idbicapital.com

Contact Person: Indrajit Bhagat /

We understand your world

HDFC Bank Limited Investment Banking Group, Unit No. 701, 702 and 702-A, 7th Floor, Tower 2 and 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 3395 8233

E-mail: ntpcgreen.ipo@hdfcbank.com Investor Grievance ID: investor.redressal@hdfcbank.com Website: www.hdfcbank.com Contact Person: Sanjay Chudasama SEBI Registration No.: INM000011252

IIFL Securities Limited

24th floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728 E-mail: ngel.ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iifl cap.com Website: www.iiflcap.com Contact person: Mansi Sampat/

Nuvama Wealth Management Limited 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block

Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: ngelipo@nuvama.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@nuvama.com Website: www.nuvama.com Contact Person: Pari Vaya SEBI Registration No.: INM000013004

Bandra Kurla Complex, Bandra East

Mumbai - 400 051 Maharashtra, India

KFin Technologies Limited Selenium Tower B. Plot No.31-32 Gachibowli. Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032 Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222/ 1800 309 4001 E-mail: ntpcgreen.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.risk@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: M. Murali Krishna. SEBI registration no: INR000000221

For NTPC GREEN ENERGY LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Manish Kumar

SEBI registration no.: INM000010940 SEBI Registration Number: INM000010866 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: New Delhi

Date : September 19, 2024 Company Secretary and Compliance Officer NTPC GREEN ENERGY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 18, 2024 with SEBI and therafter with the Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.nseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e. IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com, HDFC Bank Limited at www.hdfcbank.com, IIFL Securities Limited at www.inflcap.com and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and the website of our Company at www.ngel.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 28 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for

Pawan Jain

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in compliance with,

Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. This announcement has been prepared for publication in India only and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration requirements. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated. CONCEPT